



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 16—अक्टूबर 22, 2004 (अश्विन 24, 1926)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCT. 16—OCT. 22, 2004 (ASVINA 24, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई
सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएँ
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the
Supreme Court]

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० 03/03/78-प्रश.सं—र.ष्ट्रपति जी, श्रीमती इरबो
शकील को उपराष्ट्रपति सचिवालय में अग्रिम अधिकारी के
पद पर हुए 6500-200-10500 वेतनमान में दिनांक
1 अक्टूबर, 2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक सहर्ष
नियुक्त करते हैं।

अशोक दीकान, उप सचिव

सचिवालय में दृष्टि निजी सचिव के रूप में 14 सितम्बर,
2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से
नियुक्त किया गया है।

2. श्री मोहन सिंह सेन को निरुक्ति आचार समिति के
वर्तमान अध्यक्ष के विभागीय है और उनके कार्यकाल के
साथ ही समाप्त हो जाएंगे।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

दिनांक 30 सितम्बर, 2004

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2004

सं० आर एस०/6 (iv)/2004/77-कमि०—श्री मोहन
सिंह सेन को आचार समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में
10,000-325-15200/- रुपये के वेतनमान में राज्य सभा
1-282 01/04

(1085)

सं० आर एस०/1046/स्था० (कामि०)—अधिवृत्ति
की आयु प्राप्त करने पर श्री बुज जाल भारद्वाज, अधि-
ष्ठासो अधिकारी 30 सितम्बर, 2004 के अपराह्न से
सेवानिवृत्त हो गये।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आरएस०/1939/स्था० (कामिक)---अधिवृत्त को आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती मनजीत, अवर सचिव 30 सितम्बर, 2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गयीं।

प्र० रं० गृहाराय, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० आरएस०/1996/स्थापना (सामान्य)---राज्य सभा में 30-9-2004 (अपराह्न) को उनका कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप श्रीमती वनजा एन० सरता संयुक्त सचिव की सेवाएं 1-10-2004 (पूर्वाह्न) से उनके मूल विभाग अर्थात् सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को सौंप दी गयी हैं।

2. उन्हें प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अवकाश के संघ में कामिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 2/29/91-स्थापना (वेतन II) दिनांक 5-1-94 के उपबंधों के अनुसार 1-10-04 से 29-11-04 तक 60 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

जे० जी० नेगी, अवर सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2004

सं० ए-19015/01/1987-प्रशा०-I---राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव (तथ्य) श्री के० उन्नीकुण्ठन को मंत्रिमंडल सचिवालय में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 25 मार्च 2004 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक मंत्रिमंडल सचिव का स्टाफ अधिकारी नियुक्त करते हैं।

ए० मोहनन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 सितम्बर 2004

सं० ए-19 (673)/93-प्रशा०-II---आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2004 के का० ज्ञा० सं० 13032/12/92-आई० ई० एस० के अनुसरण में, राष्ट्रपति, योजना आयोग में श्री आलोक कुमार (आई० ई० एस० 92) एवं पूर्व दूरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 12 अगस्त, 2004 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं। तदनुसार श्री आलोक कुमार दिनांक 12-8-2004 (पूर्वाह्न) से सरकारी कर्मचारी अथवा आई० ई० एस० के अधिकारी नहीं हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० ए-43014/4/2000-प्रशा० II :--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं०

12015/1/2004-आईएसएस, दिनांक 10-09-2004 के तहत योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी, श्री बैकटरमण आर० हेगडे (भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कनिष्ठ समयमान अधिकारी) को उनके अपने अनुरोध पर बेंगलूर स्थित एनएसएसओ के क्षेत्र संस्कार प्रभाग के आंचलिक कार्यालय में किए गए स्थानांतरण के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 30-09-2004 (अपराह्न) से उनके कर्तव्यों से कार्य-भार मुक्त किया जाता है।

2. श्री हेगडे को 1-10-2004 हेतु एक दिन की अर्जित छुट्टी, 2-10-04 और 3-10-04 क्रमशः शनिवार और रविवार को पोछे जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत की जाती है, इसके बाद वे बेंगलूर स्थित क्षेत्र संस्कार प्रभाग के आंचलिक कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2004

सं० ए० 12022/2/2003-प्रशा० 4--वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 5-7-2004 के आदेश सं० 13019/2/2002-आईईएस के अनुसरण में, भारतीय आर्थिक सेवा के एनएसएसओ अधिकारी श्री एस० चन्द्रसेकर ने चेन्नई स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय में दिनांक 6-8-2004 को पूर्वाह्न से निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

के० रामचन्द्रन, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग न.व.न.न.

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

सं० ए-19/जो-ए/80/140---श्री आनन्द कुमार आई० ए० एस० (के० एल० 84) जिनकी सेवाएं तारीख 22-10-2002 के कामिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 14-2-2002 ई० ओ० (एम० एस० I) के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई थी और जिनका नियुक्ति को भारत निर्वाचन आयोग में उप-निर्वाचन आयुक्त के रूप में 18,400-22,400/- रुपये के वेतनमान में कामिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्राचार सं० 14/4/2004-ई० ओ० (एस० एम० I) तारीख 1-10-2004 द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने स्वीकृत किया है, को 1-10-2004 से उप-निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है और उनका कार्यकाल उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल का शेष अवधि अर्थात् 14-5-2005 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा।

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2004

सं० ए०-12026/11/2002-प्रशा०-I (वि० रि०)—
राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री संजय कुमार पांडा को दिनांक 27 सितम्बर 2004 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में रु० 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-4) के रूप में कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री संजय कुमार पांडा 27 सितम्बर, 2004 से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम० दास, उप सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० ए०-12025 (i)/4/2002-प्रशा०-I (वि० वि०)—
राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री रवि कुमार वर्मा को दिनांक 30 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में रु० 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में उप विधायी परामर्शी (हिन्दी शाखा) के रूप में कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री रवि कुमार वर्मा 30 सितम्बर 2004 से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम० दास, उप सचिव

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2004

सं० ए-32012/1/2004-प्रशा० IV--(वि० का०)—
कानून और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20-08-2004 के कार्रवाई सं० 21/13/2004-सी० एस० I के अनुसरण में राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव तथा केन्द्रीय सचिव लोक सेवा आयोग, ग्रेड-1 (अवर सचिव) श्री डॉ० बी० जैन, जो वर्तमान में माननीय विधि और न्याय मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, को दिनांक 31-08-2004 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ प्रोन्टिसे से उन्हें इस ग्रेड में अतिशय काल तक बने रहने या नियमित नियुक्त के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा चयन ग्रेड में बरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. तदर्थ नियुक्तियों को किसी भी वक्त कोई कारण बताए बिना समाप्त किया जा सकता है।

यशवंत सिंह, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं० के०-13025/4/2004-यू० एस०-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अशोक कुमार सामन्तर, को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष का अवधि के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

संख्या के-13025/2/2004-यू० एस० II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जय प्रकाश मिश्रा को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष का अवधि के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

संख्या के-13012/4/2003-यू० एस० II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री निशिर कुमार, (ii) श्री संजय मिश्रा, (iii) श्री रवीन्द्र सिंह, (iv) श्री राजीव शर्मा, (v) श्री अमरेश्वर प्रताप साहो और (vi) श्री विक्रम नथ को उसी वरीयता क्रम में उस तारीख, जब वे अपने-अपने कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष का अवधि के लिए इलहाबाद उच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

संख्या के-13030/2/2004-यू० एस० II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विद्या नारायण श्रीवास्तव को, उस तारीख से, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, छत्ताखण्ड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश उड़ी नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

सं० के-13021/1/2004-यू० एस०-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (1) न्यायाविद् श्री अजित जयंतराव गुंजाल, (2) न्यायाविद् श्री शांतनूगौडर मोहन मल्लेनार्जुन गौडा, (3) न्यायाविद् श्री हुम्नदकट्टे गोपालय्या रमेश, (4) न्यायाविद् श्री एस० अब्दुल नजीर, (5) न्यायाविद् श्री राम मोहन रेड्डी, (6) न्यायाविद् श्री हनुमप्प बिल्लप्प, (7) न्यायाविद् श्री अजित चंद्रनाथ कव्बिण, और (8) न्यायाविद् श्री हुलुवाडि गंगाधरप्पा रमेश को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख से, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहाय नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 24 सितम्बर, 2004

सं० के-11017/6/2004-यू० एस०-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाविद् श्री स्वतन्त्र कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानांतरित करते हैं और उन्हें 11 अक्टूबर, 2004 को या इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 28 सितम्बर 2004

सं० के० 13020/2/2004-यू० एस०-II--राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 100-क के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री हकीम इमत्यज हुसैन को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

सं० के० 13029/3/2002-यू० एस०-II--राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आनन्द प्रकाश सुब्बा को उस तारीख से, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर, 2004

सं० 1-18011/12/2004-आई पी एस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवर्धन) नियम, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कोस्तुभ शर्मा, भा० गु० से० (सं.व. : 2001) को दिनांक 2-9-2003 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

जे० बी० कौशिक, डेस्क अधिकारी

दिनांक 04 अक्टूबर 2004

सं० I-18011/11/2004-आई० पी० एस० IV-- भारतीय पुलिस सेवा (परिवर्धन) नियम, 1954 के नियम, 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तारीख
	सर्व/श्री	
1.	जय प्रकाश सिंह आई० पी० एस० (हि० प्र० 2000)	04-03-2002
2.	अतुल कुमार दिग्भर कुज्जेरे आई० पी० एस० (हि० प्र० 2001)	02-09-2003

जे० बी० कौशिक, डेस्क अधिकारी

(राज भाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2004

गृह-पत्र

सं० 12013/3/2002-रा० भा० (का०-1)--गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी के पद पर विज्ञान अधिकार पर श्रीमती सुषमता भट्टाचार्य को नियुक्ति की तिथि दिनांक 9-8-2004 (पूर्वाह्न) पढ़ी जाए।

श्रीमती सरोज जैसिया, अवर सचिव

कार्मिक, लोकर-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2004

सं० 24012/16/2004 अ० भा० से०-(II)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा को असम और मेघालय संयुक्त

संवर्ग की सदस्या श्रीमती स्मिता सबलोक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (असम मेघालय : 82) का भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हैं। इयूटो से उनकी अप्राधिकृत अनुपस्थिति "अकर्ष्य दिवस" के रूप में मानी जाएगी।

श्रीकृत अली, डेस्क अधिकारी

(प्रशासनिक सुधार एवं लोक शि.यत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 04 अक्टूबर 2004

सं० ए-19014/1/2004-प्र० सु० (प्रशा०-I)-राष्ट्रपति, श्री पी० टी० भूटिया को दिनांक 30 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रशासनिक सुधार और लोक शि.यत विभाग में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० सानेहवाल, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2004

सं० 04/पी बी.-I/2004—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ब) के सामान्य कैडर के ग्रेड-IV और साइडर कैडर के ग्रेड-II से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों को इस मंत्रालय के दिनांक 6 जुलाई, 2004 के कार्यालय आदेश सं० क्यू/कैडर/584/8/2004 के अनुसार उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से भा० वि० सं० (ख) के सामान्य कैडर के एकीकृत ग्रेड II और III में स्थानापन्न आदेश पर नियुक्त करते हैं:—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख	प्रतिनिधित्व स्थान
1	2	3	4
	श्री/श्रीमता/सुश्री		
1.	ए० एस० कुलकर्णी	03-06-2004	यू एन-II और III
2.	आई० के० शुक्ला	03-06-2004	पी ई अनुभाग
3.	आर० डी० यादव	03-06-2004	जी ए
4.	आर० चटर्जी	28-06-2004	चाइना राजिस्ट्री
5.	दीपा जैन	03-06-2004	एल एंड टी अनुभाग
6.	आर० एस० गोदरा	03-06-2004	आई ए अनुभाग
7.	नरिन्द्र शर्मा	03-06-2004	डब्ल्यू ए एन ए
8.	जैकोब वर्धीसे	03-06-2004	सी सी बी
9.	जगदीश मलिक	03-06-2004	बी सी आर
10.	सुधा रानी अग्रवाल	03-06-2004	रोक-III
11.	सुनील कुमार ओहरी	03-06-2004	रोक-III
12.	प्रीति रॉय चौधरी	03-06-2004	पी जी
13.	विजय कुमार पॉल	03-06-2004	जी ए
14.	के० बी० चन्द्रशेखरन	03-06-2004	संसद
15.	बलबीर कौर बजाज	03-06-2004	विस्त-II
16.	कपिल राज	05-07-2004	सी सी बी
17.	उषा रानी शर्मा	07-06-2004	पी ए-II
18.	सत्य प्रकाश डांगिरी	03-06-2004	आई टी पी
19.	सुश्री सुधीर उत्तम	14-07-2004	पी बी (पूल)
20.	नीता घई	04-06-2004	चाइना राजिस्ट्री
21.	एस० विजयसार्थी	14-06-2004	सी सी बी
22.	आर० के० रैना	05-07-2004	कम्प्यूटर रोल
23.	श्वेताम दुब्लिश	03-06-2004	अनुसंधान अनुभाग
24.	सुजन जोषफ	03-06-2004	प्रोत्साहन-III

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/सुश्री		
25.	गीत बन्वर	03-06-2004	पी बी-III
26.	गीतम डे	07-06-2004	अफ्रीका रजिस्ट्री
27.	अजय मलिक	03-06-2004	पी टी ए
28.	अनुज कुमार गुप्ता	03-06-2004	यू एन-II और III
29.	आदित्य कुमार बेरवाल	07-06-2004	एन जी ओ
30.	बी० के० सक्सेना	03-06-2004	रोकड़-II
31.	रविंदर एस० नागरा	03-06-2004	सी सी बी

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

रमेश सी० चड्ढा, प्रशासनिक अधिकारी (पी बी-I)

दिनांक 26 जुलाई 2004

सं० 03/पी बी-I/2004—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य कैंडर के ग्रेड-IV और साइडर कैंडर के ग्रेड-II से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों को इस मंत्रालय के दिनांक 6 जूलै, 2004 के कार्यालय आदेश सं० का/कैंडर/584/3/2004 और दिनांक 6-7-04 के परिशिष्ट सं० क्यू/कैंडर/584/3/2004 के अनुसार उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से भा० वि० से० (ख) के सामान्य कैंडर के एकीकृत ग्रेड-II और III में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं :—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख	प्रतिनियुक्ति स्थान
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	विजय कुमार शर्मा	01-4-2004	लंदन
2.	एच० के० गेरा	11-5-2004	मस्कट
3.	ए० के० खेरा	11-5-2004	सी सी बी
4.	एस० सेनगुप्ता	3-6-2004	कंपाला
5.	सुश्री बीना अग्रवाल	3-6-2004	कुवैत
6.	प्रदीप चौधरी	3-6-2004	रबात
7.	राजेश कुमार शर्मा	5-6-2004	आबू धाबी
8.	ए० जी० आर० शिंदे	3-6-2004	बाकू
9.	देविन्दर एम० सहो	3-6-2004	कैनबरा
10.	कपिल शर्मा	3-6-2004	क्वाला लामपुर
11.	जतिन्द्र पाल सिंह	3-6-2004	हिन्दी अनुभाग
12.	रमेश टोकचंदानी	3-6-2004	विलिंगटन
13.	चमन लाल	3-6-2004	शिकागो
14.	ओम प्रकाश धमोजा	3-6-2004	जॉज टाउन
15.	चन्द प्रकाश बछास	3-6-2004	सिंगापुर
16.	भीम सेन पाहवा	3-6-2004	भारत का प्रधान कौमुदावात, न्यूयार्क
17.	सतोश कुमार चावला	3-6-2004	सुवा
18.	उषा शर्मा	3-6-2004	रोम

1	2	3	4
19.	श्री/श्रीमती/सुश्री विनोद कुमार आजाद	3-6-2004	मैक्सिको सिटी
20.	राकेश कुमार कक्कड़	3-6-2004	वैकुण्ठ
21.	देवेन्द्र कौर	3-6-2004	डरबन
22.	दुर्गा सिन्हा	3-6-2004	संवन
23.	सुनील कुमार अग्निहोत्री	3-6-2004	निकोसिया
24.	सोमित्रा सिन्हा	3-6-2004	बेकाक
25.	दिग्विजय नाथ	3-6-2004	ठाका
26.	नरेश चन्द्र	3-6-2004	अल्माती
27.	ई० के० परमेश्वरन	3-6-2004	दोहा
28.	माला मनी नरेन्द्र	3-6-2004	रियाद
29.	हरीश चन्द्र	3-6-2004	वैकुण्ठ
30.	जी० एन० गैरोला	3-6-2004	डकार
31.	सुरजोत शोमे	3-6-2004	येरेवन
32.	जलघो मुखर्जी	3-6-2004	दार-ए-सलाम
33.	एस० सो० शर्मा	3-6-2004	कुवैत
34.	राजेश लाल	3-6-2004	परामुवे
35.	ओम प्रकाश-II	3-6-2004	मास्को

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

रमेश सी० चड्ढा, प्रशासनिक अधिकारी (पी बी-I)

दिनांक 18 अगस्त 2004

सं० 04/पी०बी०-I/2004—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (व) के सामान्य कैडर के ग्रेड-IV और सहायक कैडर के ग्रेड-II से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों को इस मंत्रालय के दिनांक 6 जुलाई 2004 के कार्यालय आदेश सं० व्/कैडर/584/8/2004 के अनुसार उनके नामों के प्रागे दर्ताई गई तिथियों से भा० व्/से० (व) के सामान्य कैडर के एकीकृत ग्रेड-II और III में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख	प्रतिनियुक्ति स्थान
	श्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	ओ० डी० त्यागी	3-6-2004	भारतीय दूतावास, जकार्ता
2.	ए० पी० भरतन	3-6-2004	कौंसुलर अनुभाग
3.	सुरिन्दर कुमार	3-6-2004	भारतीय दूतावास, बगौटा
4.	एन० पी० एस० सैनी	3-6-2004	भारतीय दूतावास, डबलिन
5.	चरण सिंह चौहान	3-6-2004	भारतीय दूतावास, लागोस
6.	सज्जन सिंह	3-6-2004	भारतीय दूतावास, बेहरोन
7.	बी० एन० थॉमस	5-6-2004	भारतीय दूतावास, बुडानेस्ट
8.	सुश्री इकबाल कौर	3-6-2004	भारत का महा कौंसुलावास, हांगकॉंग
9.	एस० आर० पटनायक	3-6-2004	भारतीय दूतावास, व्यूनस आयर्स
10.	टीका राम	3-6-2004	भारत का महा कौंसुलावास, दुबई
11.	सूरत सिंह	3-6-2004	भारत का महा कौंसुलावास, मंघाई

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

रमेश सी० चड्ढा, प्रशासनिक अधिकारी (पी०बी०-I)

दिनांक 01 सितम्बर, 2004

सं० 06/पी वी-1/2004—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य केडर ग्रेड-IV और साइफर केडर ग्रेड-II के निम्नलिखित अधिकारियों को इस मंत्रालय के दिनांक 06 जुलाई, 2004 के तारीख अदेश संख्या का/केडर/584/8/2004 और दिनांक 6-7-04 के परिशिष्ट संख्या का/केडर/584/3/2004 के अनुसार उनके नामों के अग्रे दर्शाई गई तिथियों से भा० वि० से० (ख) के सामान्य केडर के एकांक ग्रेड-II और III में स्थापनापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख	प्रतिनिधित्व स्थान
	श्री/श्रीमति/सुश्री		
1.	एस० एन० शर्मा	11-05-2004	भारतीय/उच्चायोग, मपुतो
2.	सूरज प्रकाश	19-07-2004	भारतीय दूतावास, वाशिंगटन
3.	सुश्री भारती भटनगर	03-06-2004	कश्मीर एकक

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

रमेश सो० चड्ढा, प्रशसनिक अधिकारी (पी वी-1)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं० एफ 12011/8/04/रा० 1 ए—राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उप नियंत्रक, सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा को एस० डी० शर्मा को इस विभाग में तदर्थ आधार पर तत्काल प्रभाव से छः माह की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, 12000-375-16500/- रु० के वेतनमान में संयुक्त नियंत्रक, सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियुक्त करते हैं।

2. संयुक्त नियंत्रक, सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा के पद पर श्री एस० डी० शर्मा को उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति से उन्हें नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता निर्धारण तथा अगले ग्रेड में पदोन्नति के दावे का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा इस तदर्थ नियुक्ति को कोई नोटिस दिए बिना या कोई कारण बताए बिना समाप्त किया जा सकता है।

एस० सौन्दर राजन, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० 15/2004(6/1182/77/मा०सं०वि०-1/3260)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस कार्यालय में श्री मनोहर लाल भूटारी, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार दिनांक 30-9-2004 (अपर.ह्) में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के० चन्द्रामती, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर, 2004

सं० ए-45011/4/2004-व्य० I—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को, जिन्हें आशुलिपिक (समूह ख/ग्रेड-I) संयुक्त सोमित विभागों प्रति लेखित स्मक पराक्षा, 2002, के परिणामों के आधार पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग का आवंटित किया गया है, प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से अगले आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में निजी सचिवों के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं०	नाम	रैंक नं०	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री सत्येन्द्र किशोर	19	28-7-2004
2.	श्री के० सिरजीवालु	22	12-7-2004

ज० ज० कौर, अवर सचिव

(आर्थिक सलाहकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2004

सं० ए-12025/1/2003-आ० सं० (प्रशा०)—वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (भा०आ०से० प्रभाग) के दिनांक 20-9-2004 के पत्र संख्या 14013/1/2003-भा०आ०से० द्वारा सूचित अनमोदन के अनुरोध में अधिक सलाहकार के कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में वरिष्ठ अधिक अन्वेषक पद (भारतीय आर्थिक सेवा के फंडर पद) को 6500-200 10500/- रुपये के वेतनमान में आर्थिक अधिकारी (समूह "ख" राजपत्रित) के रूप में तत्काल प्रभाव से पद पदनामित कर दिया गया है। तदनुसार, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के निम्नलिखित वरिष्ठ आर्थिक अन्वेषकों के वर्तमान पदनाम को तत्काल प्रभाव से

आधिक अधिकारी (समूह "ख" राजपत्रित) के रूप में परिवर्तित किया जाता है।

1. श्री के० एम० मिश्रा
2. डा० सुश्री सुमित्रा चौधरी

(वर्तमान में भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डी०सी० में प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत)

3. श्री आर० विजयराघवन
4. श्री वो० श्रीकान्त

(वर्तमान में वित्त मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत)

5. श्री सुवे सिंह
6. श्री राज कुमार
7. श्रीमती सुशीला शर्मा
8. श्री आर० के० पुरोहित
9. श्रीमती इन्दु बाला चौधरी
10. श्रीमती रमा मेहरोत्रा

जो० एस० नेगी, अपर अधिक सलाहकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2004

सं० ए-12011/12/2004-स्थापना I—राष्ट्रपति, श्री एस० सुन्दर राज, निवासी एच-13/37, चंपा मार्ग, डी एल एफ फेस-1, गुडगांव, जो किसी संगठित सेवा से संबद्ध नहीं है, को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में 6500-200-10,500/- रु० के वेतनमान में 25-6-2004 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप में और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में श्री मणि शंकर अय्यर के कार्यकाल या माननीय मंत्री जा को जब तक उनको सेवाओं की आवश्यकता है, इनमें से जो भी घटना पहले घटे, तक रहने तक है।

2. प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में श्री एस० सुन्दर राज को नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरित्र तथा पूर्ववर्तिता के स्थापन और चिकित्सीय परीक्षा के अधीन है।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के वैयक्तिक कर्मचारीगण में प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में उनको नियुक्ति पर श्री एस० सुन्दर राज का वेतन 6500-200-10,500/- रु० के वेतनमान में 6500 रु० नियत किया जाता है तथा कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11-3-98 के का० ज्ञा० सं० 2/8/97-स्था० (वेतन-2) के अनुसार समय-समय पर उस पर सामान्य भत्ते मिलेंगे।

एल० एस० नेगी, अपर सचिव

सं० ए-12011/12/2004-स्थापना—राष्ट्रपति को 6 बी/133, जनकपुरी, नई दिल्ली के निवासी, श्री एन० वेंकटरमन, जो किसी संगठित सेवा से संबंध नहीं रखते, को रु० 10000-15200/- के वेतनमान में 24-05-2004 (पूर्वाह्न) से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) के अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्ति करते हैं। अपर निजी सचिव के रूप में उनको नियुक्ति अस्थाई है और श्री मणि शंकर अय्यर के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में कार्यकाल के साथ सहपर्यावसंन के आधार पर अथवा माननीय मंत्री को उनका सेवासों की आवश्यकता रहने तक, दोनों में जो भी पहले हो, के लिए है।

2. अपर निजी सचिव के रूप में श्री एन० वेंकटरमन को नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के स्थापन तथा चिकित्सा जांच के अधीन है।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में अपर निजी सचिव के रूप में अपना नियुक्ति होने पर श्री एन० वेंकटरमन का वेतन रु० 10000-325-15200/- के वेतनमान में 10000 रुपये निर्धारित किया गया है और उस पर सामान्य भत्ते कामिक और प्रशिक्षण विभाग के का० ज्ञा० सं० 2/8/97-स्थापना (वेतन-2) दिनांक 11-3-98 द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार अनुदेय होंगे।

एल० एस० नेगी, अपर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 सितम्बर 2004

मिसिल सं० ए-12011/5/2004-स्था० (एन० पी० पी० ए०)—राष्ट्रपति को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तकनीकी संवर्ग में श्री के० के० जैन, उप निदेशक (तकनीकी) को 12000-375-16500/- रुपये के वेतनमान में निदेशक (प्रबोधा एवं प्रणाली) के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 22 सितम्बर, 2004 से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

ए० के० परशर, निदेशक (प्रशासन)

कोयला और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं० 3/11/2004-स्था०—राष्ट्रपति, श्री अभय कुमार सिंह, आई० एफ० एस० (उत्तर प्रदेश : 1986) को कोयला और खान मंत्रालय, खान विभाग में निदेशक के रूप में 22 सितम्बर, 2004 आरह्न से पांच वर्ष की अवधि या तो 22-9-2009 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

टी० एस० भाटिया, अपर सचिव

लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं० ए-42011(2)/2004-स्था०—राष्ट्रपति, डा० अर्जुन सेनगुप्ता को लघु उद्योग मंत्रालय के अधीन असंगठित/अनीप-चारिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष पद पर, एक वर्ष की अवधि अर्थात् आयोग के कार्यकाल के लिए, 20 सितम्बर, 2004 से या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हों, नियुक्त करते हैं।

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

सं० ए-19011/3/2004-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री एस० एस० चहल, आई डी ई एस (91) को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री एस० एस० चहल ने 01-10-2004 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में उप सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एम० जयरामन, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 सितम्बर 2004

सं० ए-38015/1/2004-स्था०—वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय को सामान्य केन्द्रीय सेवा के ग्रुप "ए" अधिकारी श्री प्रेम नारायण सिन्हा, सहायक निदेशक दिनांक 30-9-2004 (अपराह्न) से सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

पी० के० सरदार, निदेशक (प्रशासन)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं० ए-11013/01/2004-प्रशा० 1(ए)—राष्ट्रपति, माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्य

मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के वैयक्तिक स्टाफ में श्री अरुण कुमार नवानी को 6,500-10,500/- रुपये के वेतनमान में प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में 23 मई, 2004 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्री अरुण कुमार नवानी की नियुक्ति, माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्य करने तक अथवा माननीय राज्य मंत्री जी के कार्यकाल तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी हो, तक होगी।

3. वे अपना वेतन आदि, सामान्य नियमों के अंतर्गत अपने ग्रेड की पात्रता के अनुसार ग्रहण करेंगे।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० ए-19013/10/85-प्रशा० 1(ए)—राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में श्री एम० बन्धोपाध्याय, वैज्ञानिक "जी" को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 सितम्बर, 2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के० एस० नेपोलियन, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 24 सितम्बर 2004

सं० ए० 32013/8/2004-स्थापना-I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 जुलाई, 2004 के का० शा० संख्या 4/1/2004-सी० एस०-I के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय से स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप श्री के० सीतारामन ने दिनांक 15 जुलाई, 2004 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव के पद का कार्यभार तदर्थ आधार पर ग्रहण कर लिया है।

डा० अनिल कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2004

सं० ए० 12025/303/91-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग को सिफारिशों पर, डा० अमर नाथ चौधरी को 22-10-91 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000/-रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० अमर नाथ चौधरी को अय मंत्रालय, कर्मा (झारखण्ड) के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए०-12025/16/94-सी०एच०एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० राज मोहन त्रिवेदी को 21-9-94 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200—4000 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० राज मोहन त्रिवेदी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2004

सं० ए०-12025/1/2000-सी०एच०एम०-III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० अशोक कुमार मलिक का केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II में परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 1 मई, 2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और स्वास्थ्य संस्थान, कोलकता के अधीन सहायक प्रोफेसर, जन स्वास्थ्य के पद पर तैनात करते हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० ए०-12025/20/2003-सी०एच०एस०-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० हुकुम सिंह को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II (तंत्रिका सर्जरी) में परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 8 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में तैनात करने हैं।

वाई० के० तलवार, उप-सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली 110001, दिनांक 27 सितम्बर 2004

सं० ए०-12025/2/2003-प्रशासन-1—इस विभाग की दिनांक 20-9-2004 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक

संशोधन करते हुए दिनांक 20 सितम्बर, 2004 से डॉ० सुरेश गोवेरकर को उपायुक्त (हड्डि बुक) के पद पर नियुक्ति 20 सितम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से उनको अधिवर्षिता अर्थात् 30 नवम्बर, 2004 तक जारी रहेगी।

पी० एल० मोना, अवर सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० ए०-15011/6/2004-प्रशासन-I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस विभाग के श्री अ० ए० एस० अग्रो, उप निदेशक (आई एस एस) 30 सितम्बर, 2004 की अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

पी० एल० मोना, अवर सचिव

सं० ए०-15011/5/2004-प्रशासन-I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस विभाग के डा० एम० एम० एम० बैस, सहायक आयुक्त 30 सितम्बर, 2004 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

पी० एल० मोना, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० 13-16/84 एलडो 2/ए०3—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस० सी० भट्टाचार्य, चारा सस्य वैज्ञानिक, क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, हिसार, 30 सितम्बर 2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एम० आर० शर्मा, अवर सचिव

कृषि एवं सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2004

सं० 38012/1/2004-स्थापना-I—सेवा निवृत्ति की आयु पूरी कर लेने पर राष्ट्रपति, श्री के० बी० अरोड़ा, अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं सहकारिता विभाग को 31 अगस्त, 2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त करते हैं।

के० डी० उम्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2004

सं० ए-19012/12/2004-ई०ए०—राष्ट्रपति, भारतीय अर्थ सेवा की ज्येष्ठ अधिकारी, श्रीमती सुधा केशरी को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 15 जुलाई, 2004 की पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजकुमार, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० 4(230)/83-कार्मिक-I—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक-जी०, श्री डब्ल्यू० अर० देशपाण्डे (कर्मचारी कोड सं० 116) अधिदर्पिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-9-2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

राजकुमार मनचन्दा, उप निदेशक

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 सितम्बर 2004

सं० 2-3/2000-प्रशा०—वर्ष 2001 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वारंशता कोटा) में नाम शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, सैक्रेटरी एवं हायर एजुकेशन विभाग के नियमित सह-युक्त श्री थामस जार्ज को दिनांक 27-9-2004 से 6,500-200-10,500 रु० के वेतनमान में नियमित आधार पर डाक विभाग के अनुभाग अधिकारी संवर्ग में नियुक्त करते हैं।

जी० पी० पिल्लै, सह-युक्त महानिदेशक (प्रशा०)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० ए०-12025/2/2003एम० ए०—राष्ट्रपति, नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई में उप सामुद्रिक सलाहकार,

कप्तान सुधीर कुमार को 23 अगस्त, 2004 अपराह्न से अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले घटित हो नौवहन महानिदेशालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मुम्बई में 18,400-22,400/- रु० के वेतनमान में प्रधान अधिकारी (सामुद्रिक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नानक चन्द, अवर सचिव

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2004

सं० ए-12023/3/2004-स्था०-I—राष्ट्रपति, श्री संदीप चौबे, भारतीय राजस्व सेवा (94) को दिनांक 3-6-2004 (पूर्वाह्न) से (श्री के० एच० मुनियप्पा) माननीय राज्य मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) के विशेष कार्याधिकारी के पद पर 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में सह-अवसानी आधार पर अगले आदेशों तक अथवा जब तक माननीय मंत्री जो उनकी सेवा चाहते हों अथवा उनके द्वारा पद का कार्यभार छोड़ने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

डॉ० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं० ए-12026/1/2004-स्था०-I—राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में स्थायी अनुभाग अधिकारी (सो एस एस ग्रेड) के पद पर कार्यरत श्री लौलो म.ओ को दिनांक 19-9-2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक इसी विभाग में 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में पूर्ण-तया तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्त उन्हें अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वारंशता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। यह तदर्थ नियुक्त कोई कारण बताए बिना कभी भी समाप्त का जा सकता है।

डॉ० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

दिनांक 27 सितम्बर 2004

महासगर विकास विभाग

सं० ए-32014/2/2004-स्था० I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुनिपिक सेवा के ग्रेड 'म' आशुनिपिकों श्रीमती कमलेश खट्टर और सुश्री एम० मयेश्वरी को 6500--10500/- रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में 20-09-2004 के पूर्वाह्न से रु० माह की अवधि के लिए अथवा नियमित/चयन सूची उम्मीदवार, उपलब्ध होने तक, जो भी पहले ही, नियुक्त करते हैं।

डॉ० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं० मविबि/184/2004-स्था०--राष्ट्रपति, श्रीमती बीना चौधरी की माननीय महासगर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के प्रथम वैयक्तिक सहायक की सेवाएं तुरंत प्रभाव से अर्थात् 23 सितम्बर, 2004 (अपराह्न) से समाप्त करते हैं।

के० नारायणन, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2004

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० 25/2004, फाईल संख्या-25/2(6)/2003-स्थापना-I--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2002 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री सिद्धार्थ मित्रा को दिनांक 6-9-2004 अपराह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पद पर रु० 8000-13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री सिद्धार्थ मित्रा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं० ए-31011/5/2003 सी० एन० एन० I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह-क) (राजपत्रित) (रु० 8000-13500) के निम्नलिखित अस्थायी ग्रेड-V अधिकारियों को परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उसी पद पर, उनके नामों के अग्रे दो गई तारीख से, स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तारीख
1	2	3
1.	श्री आनंद कुमार	24-05-1997
2.	श्री वी० एम० सार्वत	29-08-1997
3.	श्री एन० एस० पंवार	19-10-1997
4.	श्री जी० के० महापात्रा	31-01-1998
5.	श्री चन्द्र देव	02-12-1997
6.	श्री करम चन्द	31-08-1997
7.	श्री वी० मुथुमणिकम	10-06-1999
8.	श्री के० एस० गुरु	27-05-1999
9.	श्री गणपति भट्ट	01-05-1999
10.	श्री वी० के० त्रिवेदी	04-06-1999
11.	श्री ए० एल० काम्बले	14-06-1999
12.	श्री पंकज दूबे	14-05-1999
13.	श्रीमती सीमा मजूमदार	17-06-1999
14.	श्री आर० सी० श्रीवास्तव	13-06-2000
15.	श्री इंदर जीत सिन्हा	03-05-1999

दिनांक 1 अक्टूबर 2004

सं० 26/2004, फा० सं० 25/2 (3)/2003-स्था० I--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2002 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री अभिषेक सिन्हा को दिनांक 20-09-04 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु० 8000--13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री अभिषेक सिन्हा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 30th September 2004

No. 03/03/78-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Hurbi Shakeel, as Section Officer in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. 1st October, 2004 (F/N) until further orders.

ASHOK DEWAN, Dy. Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 28th September 2004

No. RS/6(iv)/2004/77-Perl.—Shri Mohan Singh Sen has been temporarily appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the personal staff of Chairman, Ethics Committee with effect from the forenoon of the 14th September, 2004, until further orders.

2. The appointment of Shri Mohan Singh Sen is at the discretion of the present Chairman, Ethics Committee and will be co-terminus with the term of his office.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

The 30th September 2004

No. RS/1046/Estt.(P)—On attaining the age of superannuation, Shri Brij Lal Bhardwaj, Executive Officer retired from service with effect from the afternoon of the 30th September, 2004.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/1939/Estt.(P)—On attaining the age of superannuation, Smt. Manjeet, Under Secretary retired from service with effect from the afternoon of the 30th September, 2004.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 30th September 2004

No. RS/1996/Estt.(G)—Consequent upon completion of her tenure in the Rajya Sabha Secretariat on 30.09.2004 (AN), the services of Smt. Vanaja N. Sarna, Joint Secretary are placed back at the disposal of her parent department i.e. the Customs and Central Excise w.e.f. 01.10.2004(FN).

2. She has been sanctioned Earned Leave for 60 days w.e.f. 01.10.2004 to 29.11.04 in terms of the provisions of DOP&T O.M. No. 2/29/91-Estt. (PayII) dated 05.01.94 relating to leave to those employees who are on deputation.

J.G. NEGI, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 29th September

No. A-19015/01/1987-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri K. Unnikrishnan, Under Secretary (Ad-hoc) of

CSS, as Staff Officer to the Cabinet Secretary for a period of three years or until further orders in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in the Cabinet Secretariat on deputation basis, with effect from the forenoon of 25th March, 2004.

A. MOHANAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi-110001, the 24th September 2004

No. A.19(673)/93-Adm.II.—In pursuance of Department of Economic Affairs' O.M. No. 13032/12/92-IES dated 12th August, 2004, the President is pleased to accept the resignation of Shri Alok Kumar, [IES:92] and formerly Senior Research Officer, Planning Commission w.e.f. 12th August, 2004 (FN). Accordingly, Shri Alok Kumar ceases to be a Government servant or an Officer of IES w.e.f. 12.08.2004 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 30th September 2004

No. A-43014/4/2000-Admn.II.—Consequent upon his transfer on his own request to the Zonal office of FOD, NSSO at Bangalore vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12015/1/2004-ISS dated 10.9.2004, Shri Venkataramana R. Hegde (Junior Time Scale Officer of Indian Statistical Service), Research Officer, Planning Commission is relieved of his duties w.e.f. 30.09.2004 (AN).

2. Shri Hegde is granted earned leave for one day for 1.10.2004 with permission to suffix 2.10.04 and 3.10.04, being Saturday and Sunday respectively and thereafter, he will report at Zonal office of FOD at Bangalore.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 29th September 2004

No. 12022/2/2002-Admn.IV.—In pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. 13019/2/2002-IES dated 05.07.2004, Shri S. Chandrasekar, a NFSG officer of IES assumed charge as Director in the Regional Evaluation Office of the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) at Chennai w.e.f. the forenoon of 6th August 2004.

K. RAMACHANDRAN, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 01 October 2004

No. A-19/G-A/80/140—Shri Anand Kumar, IAS (KL:84) whose services were placed at the disposal of the Election Commission of India vide Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 14/2/2002-EO(MM-I)

dated 22.10.2002, and whose appointment as Deputy Election Commissioner in the Election Commission of India, in the scale of pay of Rs. 18,400—22,400/- has been approved by the Appointments Committee of the Cabinet vide Department of Personnel and Training Communication No. 14/4/2004-EO(SM-I) dated 01.10.2004, is appointed as Deputy Election Commissioner w.e.f. 01.10.2004 and his tenure will be for the balance period of his central deputation tenure i.e. upto 14.05.2005 or until further orders, whichever event takes place earlier.

By Order
NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 28th September 2004

No. A.12026/11/2002-Admn.I(L.D.)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Panda to officiate as Assistant Legislative Counsel (Grade-IV of Indian Legal Service) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 27th September 2004 and until further orders.

2. Shri Sanjay Kumar Panda will be on probation for a period of two years with effect from 27th September, 2004.

M. DAS, Dy. Secy.

The 30th September 2004

No. A.12025(i)/4/2002-Admn.I(L.D.)—On recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Ravi Kumar Verma to officiate as Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch) in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 30th September, 2004 and until further orders.

2. Shri Ravi Kumar Verma will be on probation for a period of one year with effect from 30th September 2004.

M. DAS, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 17th September 2004

No. A-32012/1/2004-Admn.IV (LA)—Pursuant to Department of personnel & Training's O.M. No. 21/13/2004-C.S.I. dated 20.08.2004 the President is pleased to appoint Shri B.B. Jain, Grade-I (Under Secretary), CSS Officer of Cabinet Secretariat and presently working as Private Secretary to Hon'ble Minister for Law & Justice as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) on ad-hoc basis until further orders in Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice w.e.f. the forenoon of 31.08.2004.

2. The ad-hoc promotion shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

3. The ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

YASHWANT SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 23rd September 2004

No. K. 13025/4/2004-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Ashoke Kumar Samantaray, to be an Additional Judge of the Orissa High Court for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 13025/2/2004-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Jaya Prakash Mishra, to be an Additional Judge of the Orissa High Court for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 13012/4/2003-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Shishir Kumar (ii) Shri Sanjay Misra (iii) Shri Ravindra Singh (iv) Shri Rajiv Sharma (v) Shri Amreshwar Pratap Sahi, and (vi) Shri Vikram Nath, as Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 1330/2/2004-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Shrivastava, to be a Judge of the Chhattisgarh High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K.13021/1/2004-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Justice Ajit Jayantrao Gunjal, (2) Shri Justice Shantanagoudar Mohan Mallikarjunagouda, (3) Shri Justice Humchadakatte Gopalaiah Ramesh, (4) Shri Justice S. Abdul Nazeer,

(5) Shri Justice Ram Mohan Reddy, (6) Shri Justice Hanumappa Billappa, (7) Shri Justice Ajit Chandranath Kabbin and (8) Shri Justice Huluvadi Gangadharappa Ramesh, Additional Judges of the Karnataka High Court, to be Judges of the Karnataka High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

The 24th September 2004

No. K. 11017/6/2004-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Swatanter Kumar, Judge of the Punjab & Haryana High Court as a Judge of the Delhi High Court and to direct him to assume charge of his office in the Delhi High Court on or before October 11, 2004.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

The 28th September 2004

No. K. 13020/2/2004-US.II—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 100-A of the Constitution of Jammu and Kashmir, the President is pleased to appoint Shri Hakim Imtiyaz Hussain, to be an Additional Judge of the Jammu & Kashmir High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 13029/3/2002-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Ananda Prakash Subba, to be a Judge of the Sikkim High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 30th September 2004

No. I-18011/12/2004-IPS.IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Kaustubh Sharma, IPS (Punjab:2001), in Indian Police Service with effect from 02.09.2003.

J.B. KAUSHISH
Desk Officer

The 4th October 2004

No. I-18011/11/2004-IPS.IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the

Indian Police Service borne on the cadre of HIMACHAL PRADESH with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the officer	Date of confirmation
1.	S/Shri Jai Prakash Singh IPS (HP: 2000)	04.09.2002
2	Atul Kumar Digambar Fulzele, IPS (HP:2001)	02.09.2003

J.B. KAUSHISH, Desk Officer

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 30th September 2004

CORRIGENDUM

No. 12013/3/2002-OL(Impl.-I)—The Date of appointment of Smt. Sushmita Bhattacharya as Research Officer (Implementation), on absorption basis, in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs shall be read as 9.8.2004 (F.N.).

SMT. SAROJ JAISIA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 28th September 2004

No. 24012/16/2004-AIS(II)—The President is pleased to accept the resignation of Smt. Smita Sabhlok, IAS (AM:82), member of the Indian Administrative Service, borne on the joint cadre of Assam and Meghalaya, from the Indian Administrative Service with immediate effect. Her unauthorized absence from duty shall be treated as "dies non".

SHAUKAT ALI, Desk Officer

(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi-110001, the 4th October 2004

No. A-19014/1/2004-AR(Ad.I.)—The President is pleased to appoint Shri P.T. Bhutia as under Secretary in the Department of Administrative Reforms and Public Grievances with effect from the forenoon of 30 September 2004 until further orders.

R. SANEHWAL
Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th July 2004

No. 01/PB-I/2004—The President is pleased to appoint the under mentioned Officers belonging to Grade IV of General Cadre of IFS(B) and Grade II of Cypher Cadre to officiate in Integrated Grade II & III of General Cadre of IFS(B) with effect from the dates shown against their names in terms of Ministry's OM No. Q/CAD/584/8/2004 dated the 06th July, 2004.

S.No.	Name of the Officer	Date of promotion	Deployed at
1.	S/Shri/Ms. A.S. Kulkarni	03.06.2004	UN-II & III
2.	Y.K. Shukla	03.06.2004	PE Section
3.	R.D. Yadav	03.06.2004	GA
4.	R. Chatterjee	28.06.2004	China Registry
5.	Deepa Jain	03.06.2004	L & T Section
6.	R.S. Godara	03.06.2004	IA Section
7.	Narinder Sharma	03.06.2004	WANA
8.	Jacob Verghese	03.06.2004	CCB
9.	Jagdish Malik	03.06.2004	VCR
10.	Sudha Rani Agrawal	03.06.2004	Cash III
11.	Sunil Kumar Ohri	03.06.2004	Cash-III
12.	Preeti Roy Chowdhary	03.06.2004	PG
13.	Vijay Kumar Paul	03.06.2004	GA
14.	K.V. Chandrasekharan	03.06.2004	Parliament
15.	Balbir Kaur Bajaj	03.06.2004	Fin. III
16.	Kapil Raj	05.07.2004	CCB
17.	Usha Rani Sharma	07.06.2004	PA-II
18.	Satya Prakash Dangiri	03.06.2004	ITP
19.	Ms. Sudhir Uttam	14.07.2004	PB (Pool)
20.	Nita Ghai	04.06.2004	China Registry
21.	S. Vijaysarathi	14.06.2004	CCB
22.	R.K. Raina	05.07.2004	Computer Cell
23.	Shwetabh Dubish	03.06.2004	Research Section
24.	Susan Josph	03.06.2004	Protocol-III
25.	Geeta Babbar	03.06.2004	PV-III
26.	Goutam De	07.06.2004	Africa Registry
27.	Ajay Malik	03.06.2004	PTA
28.	Anuj Kumar Gupta	03.06.2004	UN-II & III
29.	Aditya Kumar Berwal	07.06.2004	NGO
30.	V.K. Saxena	03.06.2004	Cash II
31.	Ravinder S. Nagra	03.06.2004	CCB

2. The above named officers have assumed charge of the post of Section Officer with effect from the date shown against their names.

RAMESH C. CHADHA
Administrative Officer (PB-I)

The 26th July 2004

No. 03/PB-I/2004—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers belonging to Grade IV of General Cadre of IFS(B) and Grade II of Cypher Cadre to officiate in Integrated Grade II & III of General Cadre of IFS(B) with effect from the dates shown against their names in terms of Ministry's OM No. Q/CAD/584/8/2004 dated the 06th July, 2004 and addendum No. Q/CAD/584/3/2004 dated 6.7.04.

S.No.	Name of the Officer	Date of promotion	Deployed at
1.	S/Shri/Ms. Vijay Kumar Sharma	01.04.2004	London
2.	H.K. Gera	11.05.2004	Muscat
3.	A.K. Khara	11.05.2004	CCB
4.	S. Sengupta	03.06.2004	Kampala
5.	Ms. Veena Aggarwal	03.06.2004	Kuwait
6.	Pradeep Chaudhary	03.06.2004	Rabat
7.	Rajesh Kumar Sharma	05.06.2004	Abu Dhabi
8.	A.G.R. Shinde	03.06.2004	Baku
9.	Devinder M. Saddi	03.06.2004	Canberra
10.	Kapil Sharma	03.06.2004	Kuala Lumpur
11.	Jatinder Pal Singh	03.06.2004	Hindi Section
12.	Ramesh Teckchandani	03.06.2004	Wellington
13.	Chaman Lal	03.06.2004	Chicago
14.	Om Prakash Dhamija	03.06.2004	Georgetown
15.	Chand Prakash Bachhas	03.06.2004	Singapore
16.	Bhim Sen Pahwa	03.06.2004	CGI, N. York
17.	Satish Kumar Chawla	03.06.2004	Suva
18.	Usha Sharma	03.06.2004	Rome
19.	Vinod Kumar Azad	03.06.2004	Mexico city
20.	Rakesh Kumar Kakkar	03.06.2004	Vancouver
21.	Devinder Kaur	03.06.2004	Durban
22.	Durga Sinha	03.06.2004	London
23.	Sunil Kumar Agnihotri	03.06.2004	Nicosia
24.	Soumitra Singha	03.06.2004	Bangkok
25.	Digvijay Nath	03.06.2004	Dhaka
26.	Nareish Chander	03.06.2004	Almaty
27.	E.K. Parmeshwaran	03.06.2004	Doha
28.	Mala Mani Narendra	03.06.2004	Riyadh
29.	Harish Chandra	03.06.2004	Vancouver
30.	G.N. Galroia	03.06.2004	Dakar
31.	Surajit Shome	03.06.2004	Yerevan
32.	Jaladhi Mukherjee	03.06.2004	Dar-es-salam
33.	S.C. Sharma	03.06.2004	Kuwait
34.	Rajesh Lal	03.06.2004	Prague
35.	Om Prakash II	03.06.2004	Moscow

2. The above named officers have assumed charge of the post of Section Officer with effect from the date shown against their names.

RAMESH C. CHADHA
Admn. Officer (PB-I)

The 18th August 2004

No. 04/PB-I/2004—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers belonging to Grade-IV of General Cadre of IPS(B) and Grade II of Cypher Cadre to officiate in Integrated Grade-II & III of General Cadre of IFS(B) with effect from the dates shown against their names in terms of Ministry's OM No. Q/CAD/584/8/2004 dated the 06th July, 2004:—

S.No.	Name of the Officer	Date of promotion	Deployed at
1.	S/Shri/Ms. O.D. Tyagi	03.06.2004	E/I, Jakarta
2.	A.P. Bharathan	03.06.2004	Consular Section
3.	Surinder Kumar	03.06.2004	E/I, Bogota
4.	N.P.S. Saini	03.06.2004	E/I, Dublin
5.	Charan Singh Chauhan	03.06.2004	E/I, Lagos
6.	Sajjan Singh	03.06.2004	E/I, Bahrain
7.	B.N. Thomas	03.06.2004	E/I, Budapest
8.	Ms. Iqbal Kaur	03.06.2004	CGI, Hong Kong
9.	S.R. Patnaik	03.06.2004	E/I, Buenos Aires
10.	Tika Ram	03.06.2004	CGI, Dubai
11.	Surat Singh	03.06.2004	CGI, Shanghai.

2. The above named officers have assumed charge of the post of Section Officer with effect from the date shown against their names.

RAMESH C. CHADHA
Administrative Officer (PB-I)

The 01st September 2004

No. 06/PB-I/2004—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers belonging to Grade-IV of General Cadre of IPS(B) and Grade-II of Cypher Cadre to officiate in Integrated Grade-II & III of General Cadre of IFS(B) with effect from the dates shown against their names in terms of Ministry's OM No. Q/CAD/584/8/2004 dated the 06th July, 2004 and addendum No. Q/CAD/584/3/2004 dated 6.7.04.:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of promotion	Deployed at
1.	S/Shri/Ms. S.N. Sharma	11.05.2004	HCI, Maputo
2.	Suraj Prakash	19.07.2004	E/I, Washington
3.	Ms. Bharti Bhatnagar	03.06.2004	Kashmir Unit

2. The above named officers have assumed charge of the post of Section Officer with effect from the date shown against their names.

RAMESH C. CHADHA
Admn. Officer (PB-I)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 23rd September 2004

No. F.12011/8/04-Ad.IA—The President is pleased to appoint Shri S.D. Sharma, Deputy Controller of Aid Accounts & Audit of the Ministry in Finance, Department of Economic Affairs to the post of Joint Controller of Aid Accounts & Audit in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- in the same Department, on ad-hoc basis, with immediate effect for a period of six months or till the post is filled up on regular basis, which ever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment of Shri S.D. Sharma to the post of Joint Controller of Aid Accounts & Audit will not confer on him any right for regular appointment or seniority fixation and promotion in the next grade and his ad-hoc appointment can be terminated without giving any notice or assigning any reason.

S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 30th September 2004

No. 6/1182/77/HRD-I/3260—On attaining the age of Superannuation Shri Manohar Lal Bhutani Addl. Director General of Foreign Trade, in this Office has retired from Government service with effect from 30.09.2004 (AN).

K. CHANDRAMATHI
Jt. Director General of Foreign Trade

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 13th September 2004

No. A-45011/4/2004-E.I—The President is pleased to appoint the following officers who have been allocated to the Central Secretariat Stenographers Service Cadre of Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry on the basis of the results of the Stenographers (Gr.B/Gr.I) Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2002, as Private Secretaries in the Central Secretariat Stenographers Service Cadre of

Department of Industrial Policy and Promotion, with effect from the date indicated against each until further orders.

S.No.	Name	Rank No.	Date of appointment
	S/Shri		
1.	Satyendra Kishore	19	28.07.2004
2.	K. Siranjeevalu	22	12.07.2004

J.J. KAUR, Under Secy.

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 29th September 2004

No. A-12025/1/2003-Ec.Ad.(Admn.I).—In pursuance of the approval as communicated by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IES Division) letter F. No. 14013/1/2003-IES dated 20.09.2004, the posts of Senior Economic Investigators (feeder posts to the Indian Economic Service) in the Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce and Industry have been re-designated as Economic Officer (Group 'B'-Gazetted) with immediate effect in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/-. Consequently, the present designation of the following Senior Economic Investigators of the office of Economic Adviser, has been changed as Economic Officer (Group 'B'-Gazetted) with immediate effect.

1. Shri K.M.Mishra
2. Dr. (Ms.) Sumitra Chowdhury (presently on deputation as Research Officer in Embassy of India, Washington D.C.)
3. Shri R. Vijayraghvan
4. Shri v. Srikanth (presently on deputation as Asstt. Director in Ministry of Finance).
5. Sube Singh
6. Shri Rajkumar
7. Smt. Sushila Sharma
8. Shri R.K. Purohit
9. Smt. Indu Bala Chopra
10. Smt. Rama Mehrotra

G.S. NEGI

Addl. Economic Adviser

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 5th July 2004

No. A-12011/12/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri S. Sunder Raj, resident of H-13/37, Champa Marg, DLF Phase I Gurgaon, who does not belong to any organized service, as Ist PA to Minister for Petroleum & Natural Gas (Shri Mani Shankar Aiyar) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. 25.06.2004 (FN). His appointment as Ist PA is temporary and co-terminus with the tenure of Shri Mani Shankar Aiyar as Minister for

Petroleum & Natural Gas or till his services are required by the Hon'ble Minister, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri S. Sunder Raj Ist PA is subject to the verification of character and antecedents and medical examination by the competent authority.

3. On his appointment as Ist PA in the personal staff of the Minister for Petroleum & Natural Gas, the pay of Shri S. Sunder Raj is fixed at Rs. 6500/- in the Pay Scale of Rs. 6500-200-10500/- and usual allowances thereon from time to time in terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 2/8/97-Estt. (Pay-II) dated. 11.03.98.

L.S. NEGI, Under Secy.

No. A-12011/12/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri N. Venkataraman, resident of C6B/133, Janak Puri, New Delhi, who does not belong to any organized service, as Additional Private Secretary to Minister for Petroleum & Natural Gas (Shri Mani Shankar Aiyar) in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- w.e.f. 24.05.2004(FN). His appointment as Additional Private Secretary is temporary and co-terminus with the tenure of Shri Mani Shankar Aiyar as Minister for Petroleum & Natural Gas or till his services are required by the Hon'ble Minister, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri N. Venkataraman as Additional Private Secretary is subject to the verification of character and antecedents and medical examination by the competent authority.

3. On his appointment as Additional Private Secretary in the Personal staff of the Minister for Petroleum & Natural Gas, the pay of Shri N. Venkataraman is fixed at Rs. 10000/- in the scale of Rs. 10000-325-15200/- and usual allowances thereon from time to time in terms of Department of personnel & Training's O.M. No. 2/8/97-Estt. (Pay-II) dated 11.03.98.

L.S. NEGI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY

New Delhi-110001, the 22nd September 2004

F. No. 12011/5/2004/Estt.(NPPA)—The President is pleased to appoint Sh. K.K. Jain, Deputy Director (Technical) to the post of Director (Monitoring & Systems) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- in the technical cadre of National Pharmaceutical Pricing Authority on ad-hoc basis w.e.f. 22nd September, 2004 till further orders.

A.K. PARASHAR, Director (Admn.)

MINISTRY OF COAL & MINES
(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 23rd September 2004

No. 3/11/2004 Estt.—The President is pleased to appoint Shri Abhay Kumar Singh, IFS (UP:1986) as Director in Department of Mines, Ministry of Coal and Mines with effect from the afternoon of 22nd September 2004 for a period of five years i.e. up to 22.09.2009 or until further orders, whichever is earlier.

T.S. BHATIA, Under Secy.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 20th September 2004

No. A-42011(2)/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Arjun Sengupta as Chairman (in the rank of Cabinet Minister) of the National Commission on Enterprises for the Unorganized/Informal Sector under the Ministry of Small Scale Industries for a period of one year i.e. the tenure of the Commission, with effect from the afternoon of the 20th September, 2004 or until further orders, whichever is earlier.

H.R. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 1st October 2004

No. A-19011/3/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S.S. Chahal, IDES (91) as Deputy Secretary in the Ministry of Food Processing Industries.

Shri S.S. Chahal has assumed the charge of the post of Deputy Secretary in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 1.10.2004 (F&N).

M. JAYARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)
DIRECTORATE OF VANASPATHI, VEGETABLE OILS & FATS

New Delhi-110003, the 10th September 2004

No. A-38015/1/2004-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri Prem Narain Sinha, Assistant Director, a Group 'A' Officer of General Central Services of the Directorate of Vanaspathi, Vegetable Oils & Fats, will stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 30.09.2004.

P.K. SARDAR, Director (Admn.)

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 23rd September 2004

No. A.11013/01/2004-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Nawani, 1st Personal

Assistant in the personal staff of Hon'ble Minister of State for Science & Technology and Ocean Development (Independent Charge) in the scale of pay of Rs. 6,500-10,500/- with effect from the forenoon of 23rd May, 2004.

2. The appointment of Shri Arun Kumar Nawani, would be for such period till he ceases to work as 1st Personal Assistant to the Hon'ble Minister of State for Science and Technology and Ocean Development (Independent Charge) or co-terminus with the term of Hon'ble MOS or until further orders, whichever event takes place earlier.

3. He will draw his pay etc. in his respective grade as per his entitlement under normal rules.

T.N. DWIVEDI, Under Secy.

New Delhi-110016, the 30th September 2004

No. A.19014/29/84-Admn.I(A).—The President is pleased to retire Shri M. Bandyopadhyay, Scientist 'G' from the Government service on attaining the age of superannuation on 30th September, 2004(AN).

K.S. NAPOLEAN, Dir.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 24th September 2004

No. A. 32013/8/2004-Estt.I.—Consequent on transfer from the Ministry of Power vide DOPT O.M. No. 4/1/2004-CS.I dated the 15th July, 2004, Shri K. Sitaraman, has assumed charge as Under Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 15th July, 2004.

DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110011, the 28th September 2004

No. A.12025/303/91-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Amar Nath Choudhary to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22.10.91 until further orders. Dr. Amar Nath Choudhary was posted as Medical Officer under Ministry of Labour, Karma (Jharkhand).

IAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A/12025/161/94-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Raj Mohan Trivedi to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21.09.94 until further orders. Dr. Raj

Mohan Trivedi is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 28th September 2004

No. A.12025/1/2000-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ashok Kumar Mallick, an officer of the Specialist Grade-II post of the Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post him as Assistant Prof. of Public Health, All India Institute of Hygiene & Public Health, Kolkata with effect from the forenoon of the 1st May, 2002 until further orders.

Y. K. TALWAR, Dy. Secy.

The 30th September 2004

No. A-12025/20/2003-CHS.IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Hukum Singh to the post of Specialist Grade-II (Neuro Surgery) of Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post him in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of the 8th July, 2003 until further orders.

Y. K. TALWAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 27th September 2004

No. A-12025/2/2003-Admn.I.—In partial modification of this department's notification of even number dated 20.9.2004, the appointment of Dr. Suresh Govekar as Deputy Commissioner (Herd Book) with effect from the forenoon of 20th September 2004 will continue till the date of his superannuation i.e. 30th November 2004.

P. L. MEENA, Under Secy.

The 30th September 2004

No. A-15011/6/2004-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri R. S. Attri, Deputy Director (ISS) in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2004.

P. L. MEENA, Under Secy.

No. A-15011/5/2004-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Dr. M.M.M. Beg, Assistant Commissioner

(CD) in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2004.

P. L. MEENA, Under Secy.

New Delhi, the 30th September 2004

No. 13-16/84-LD.II/Admn.III.—On attaining the age of superannuation, Shri S.C. Bhattacharyya, Fodder Agronomist, Regional Station for Forage Production & Demonstration, Hissar retires from Government service w.e.f. the afternoon of 30th September, 2004.

M. R. SHARMA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 31st August 2004

No. 38012/1/2004-E.I.—Consequent on his attaining the age of superannuation, the President is pleased to retire Shri K.B. Arora, Section Officer in Department of Agriculture and Cooperation, from Government service with effect from the afternoon of 31st August 2004.

K. D. UPRETI, Under Secy.

New Delhi, the 14th September 2004

No. A-19012/12/2004-EA.—The President is pleased to appoint Smt. Sudha Keshari, a Senior Time Scale (STS) officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Deputy Director, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of the 15th July, 2004.

RAJ KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 30th September 2004

No. 4 (230)/83-Pers.I.—On attaining the age of superannuation, Shri W. R. Deshpande, Scientist 'G' (Emp. Code No. 116) in the Department of Information Technology will be retiring from service with effect from afternoon of 30.09.2004.

R. K. MANCHANDA, Dy. Dir.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 29th September 2004

No. 2-3/2000-Admn.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade for the

year 2001 (Seniority Quota), the President is pleased to appoint Shri Thomas George, a regular Assistant in the cadre of Department of Secondary and Higher Education as Section Officer in the cadre of the Department of Posts, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis with effect from 27.09.2004.

G. P. PILLAI, Asstt. Dir. General (Admn.)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 30th September 2004

No. A-12025/2/2003-MA—The President is pleased to appoint Captain Sudhir Kumar, Deputy Nautical Adviser in the Directorate General of Shipping as Principal Officer (Nautical) in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400 in the Directorate General of Shipping, the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, with effect from 23rd August, 2004 (AN) and until further orders whichever event occurs earlier.

NANAK CHAND, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 14th September 2004

No. A-12023/3/2004-E-I—The President is pleased to appoint Shri Sandeep Choube, IRS (94) as Officer on Special Duty (OSD) to Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Shri K. H. Muniyappa) on co-terminus basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 3.6.2004 (F.N.) till further orders or till the Minister desires his services or demits the office, whichever event occurs at the earliest.

Dr. N. C. KAUSHIK, Under Secy.

The 20th September 2004

No. A-12026/1/2004-E-I—The President is pleased to appoint Shri Lowli Mao, a permanent Section Officer of CSS as Under Secretary in the Department of Road Transport & Highways on purely ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 1.9.2004 (F.N.) till further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

Dr. N. C. KAUSHIK, Under Secy.

The 27th September 2004

No. A-32014/2/2004-E.I—The President is pleased to appoint Smt. Kamlesh Khatter and Kum. M. Ganeswari stenos Grade 'C' of CSSS as Private Secretaries on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-10,500/- for a period of six months w.e.f. the forenoon of 20.9.2004 or till regular/Select List candidates become available, whichever is earlier.

Dr. N. C. KAUSHIK, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 29th September 2004

No. 25/2004 F. No. 25/2 (6)/2003-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2002, the President is pleased to appoint Shri Sidhartha Mitra to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8,000—13,500/- in the Central Water Commission with effect from 6.09.2004 (A.N.)

2. Shri Sidhartha Mitra will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

The 1st October 2004

No. 26/2004 F. No. 25/2(3)/2003-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2002, the President is pleased to appoint Shri Abhishek Sinha to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8,000-13,500/- in the Central Water Commission with effect from 20.09.2004 (F.N.)

2. Shri Abhishek Sinha will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 23rd September 2004

DOD/18/4/2004-Estt.—The President is pleased to terminate the services of Smt. Veena Chopra First Personal Assistant to Hon'ble Minister of State (Independent charge) for Ocean Development with immediate effect i.e. w.e.f. 23rd September, 2004 (A.N.)

K. NARAYANAN, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 30th September 2004

No. A-31011/5/2003-CLS.I—The President is pleased to appoint the following temporary Grade-V officers of Central

Labour Service (Group A) (Gazetted) Rs. 8,000—13,500/- in substantive capacity in the same post on completion of probation successfully, with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
1	2	3
1.	Sh. Anand Kumar	24.05.1997
2.	Sh. V. M. Sawant	29.08.1997
3.	Sh. N. S. Panwar	19.10.1997
4.	Sh. G. K. Mohapatra	31.01.1998
5.	Sh. Chandra Deo	02.12.1997
6.	Sh. Karam Chand	31.08.1997
7.	Sh. V. Muthumanikam	10.06.1999
8.	Sh. K. S. Guru	27.05.1999
9.	Sh. Ganapati Bhatt	01.05.1999
10.	Sh. V. K. Trivedi	04.06.1999
11.	Sh. A. L. Kamble	14.06.1999
12.	Sh. Pankaj Dubey	14.05.1999
13.	Smt. Seema Majumdar	17.06.1999
14.	Sh. R. C. Srivastava	13.06.2000

1	2	3
15.	Sh. Inderjit Sinha	03.05.1999
16.	Sh. G. C. Majumdar	15.05.1999
17.	Sh. G.V.P.L.N. Rao	10.05.1999
18.	Sh. S. K. Mishra	26.04.1999
19.	Sh. D. K. Mallick	11.06.2000
20.	Sh. M. Dhruva	03.05.2000
21.	Sh. R. G. Meena	23.04.1999
22.	Sh. Vijay Kumar	21.05.1999
23.	Sh. Kamaljeet Singh	22.07.1999
24.	Sh. P. K. Lukas	07.06.2001
25.	Sh. N. M. Shetty	29.06.2001
26.	Sh. S. S. Sharma	29.06.2001
27.	Sh. S. Chakraborty	21.05.2001
28.	Sh. N. M. Karthigeyan	27.04.2001
29.	Sh. Jugraj Singh	16.06.2001
30.	Sh. K. S. Gabriel	01.08.2001
31.	Sh. P. Ganesan	03.06.2001
32.	Sh. B. Khemendu	27.05.2001

J. P. PATI, Jt. Secy.